

ये सिद्धि विनायक है

ये सिद्धि विनायक है घज रूप निराला है,
विघ्न हरता मेरे को सब विघ्नो को टाला है
संकट में नैया हो देवा ने सम्बाला है
विघ्न हरता मेरे को सब विघ्नो को टाला है

शंकर जी ने स्वयं तुझको घज शीश लगाया है,
पेहले पूजा तुम्हारा प्रथमेश बनाया है,
दुखो और कलेशो से तुम ने भगतो को निकाला है
विघ्न हरता मेरे को सब विघ्नो को टाला है

माँ बाप के चरणों की तुमने परिकर्मा की,
तुम श्रेष्ठ हो बुधी में पदवी ये हासिल की
अंधियारे जीवन में तुमने भरा उजाला है
विघ्न हरता मेरे को सब विघ्नो को टाला है

गोरा माँ के प्यारे हो शिव जी के दुलारे हो,
नंदी भंगी शिव घन तू सब के ही सहारे हो
पिताम्बर पेहने और ओड दुशाला है
भग विघ्नो को टाला है
विघ्न हरता मेरे को सब विघ्नो को टाला है

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/22278/title/ye-sidhi-vinayak-hai>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |